



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



**संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001**

**Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502**

30 अप्रैल 2025

### बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – मार्च 2025

मार्च 2025<sup>1</sup> माह के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्रवार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी एससीबी द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण<sup>2</sup> 21 मार्च 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 12.0 प्रतिशत की दर से बढ़ा<sup>3</sup>, जबकि पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (अर्थात, 22 मार्च 2024) में यह 16.3 प्रतिशत था।

**बैंक ऋण<sup>3</sup> के क्षेत्रवार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :**

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में 21 मार्च 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 10.4 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 20.0 प्रतिशत)।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 21 मार्च 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 8.0 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े के समान थी। प्रमुख उद्योगों में, 'पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन', 'मूल धातु और धातु उत्पाद', 'सभी अभियांत्रिकी' तथा 'निर्माण' को बकाया ऋण में तेज वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, 'आधारभूत संरचना' खंड में ऋण वृद्धि में गिरावट आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में 21 मार्च 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 13.4 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े में 20.8 प्रतिशत), जो मुख्य रूप से 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (एनबीएफसी) को प्रदत्त ऋण में धीमी वृद्धि के कारण थी। 'पेशेवर सेवाओं' और 'व्यापार' खंड में ऋण वृद्धि (व-द-व) मजबूत बनी रही।
- वैयक्तिक ऋण खंड हेतु प्रदत्त ऋण में 21 मार्च 2025 को समाप्त पखवाड़े की स्थिति के अनुसार 14.0 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 17.6 प्रतिशत थी, जिसका मुख्य कारण 'अन्य वैयक्तिक ऋण', 'वाहन ऋण', और 'क्रेडिट कार्ड बकाया' में वृद्धि में गिरावट थी।

**अजीत प्रसाद**

उप महाप्रबंधक (संचार)

**प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/217**

<sup>1</sup> आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं, जो क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) विवरणी पर आधारित हैं।

<sup>2</sup> खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

<sup>3</sup> आंकड़े बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।